



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 17, 1982/फाल्गुन 26, 1903

No. 9] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 17, 1982/PHALGUNA 26, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 1982

आ०अ० 18(अ).—निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के

उप-नियम (2) के अनुसरण से, निम्नलिखित का प्रकाशन सर्वसाधारण की सूचना के लिए किया जाता है :-

प्रकरण 7

निर्वाचन लेइने वाले अभ्यर्थियों की सूची

[नियम 10(1) देखिये]

गुजरात विधान सभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन ।

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1	2	3
1.	श्रीशं कुमुदबेन मणि शंकर	बंगा (धनारी) तालुक : गन्देवी, जिला बालसाड ।
2.	पटेल इन्दुभाई चतुर भाई	बन्वती, तालुक : पेटलड, जिला : खेदा । }
3.	पटेल विठ्ठलभाई मोतिराम	पल्लवार कालोती, ब्लॉक नं० 4, प्लेट नं० 20 विजयनगर, अहमदाबाद ।
4.	मकवाना योगेन्द्र कुमार मावजी भाई	"शारकेश", 12, हेमन्तर्षा सोसायटी, पलार्ड अहमदाबाद-7 ।
5.	एचबाकोली रामसिंह भाई पत्तालिया भाई	'पिपालदी', तालुक : छोटा उदयपुर, जिला झुंझरा ।

स्थान : गांधी नगर

तारीख : 11 मार्च, 1982

के० एम० पंचाल,

सहायक रिटर्निंग आफिसर ।

[सं० 318/गुज०/81]]

प्रार०पी अस्ला, सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 1982

O.N. 18 (E). —In pursuance of sub-rule (2) of rule 11 of the Conduct of Elections

Rules, 1961, the following is published for general information:—

FORM 7B

LIST OF CONTESTING CANDIDATES

[See Rule 10 (1)]

Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of Gujarat.

Serial No.	Name of Candidate	Address of Candidate
1	2	3
1.	Joshi Kumudben Manishanker	Changa (Dhanori) Taluka : Gandevi, Dist:—Valsad.
2.	Patel Indubhai Chaturbhai	Bandhni, Taluka : Petlad, Dist : Kheda.
3.	Patel Viththalbhai Motiram	Patrakar Colony, Block No. 4, Flat No. 20 Vijaynagar, Ahmedabad.
4.	Makwana Yogendrakumar Mayjibhai	"Dwarkesh", 12, Hemantkunj Society, Paladi, Ahmedabad-7.
5.	Rathvakoli Ramsinghbhai Pataliyabhai	Pipaladi, Taluka : Chhotaudepur Dist : Vadodara.

Place : Gandhinagar

Dated : 11th March, 1982.

K.M. Panchal,
Assistant Returning Officer.

[No. 318/GJ/82]

R.P. BHALLA, Secy.,
Election Commission of India.

